

UTTARAKHAND
Uttarakhand VAT - Imposition of Additional Tax

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग-8

सं०/2010/टी०सी० 294/XXVII(8)/2007

दिनांक : देहरादून : 26 फरवरी, 2010

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) की धारा 3(क) की उपधारा (1) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं० 1 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम के अधीन कर का दायी प्रत्येक व्यौहारी दिनांक 1 मार्च, 2010 से उक्त अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों के अधीन संदेय कर के अतिरिक्त नीचे सारिणी के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट माल की खरीद या बिक्री अथवा दोनों, जैसी भी स्थिति हो, के कराधेय आवर्त पर प्रत्येक के सम्मुख सारिणी के स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट दर पर अतिरिक्त कर का भुगतान करेगा:-

सारिणी

क्र०सं०	वस्तु का विवरण	दर
1	2	3
1.	घोषित माल को छोड़कर उक्त अधिनियम की अनुसूची-II(ख) में वर्णित वस्तुयें	0.5 प्रतिशत
2.	उक्त अधिनियम की किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल	01 प्रतिशत

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 234/2010/TC 294/XXVII(8)/2007 dated 26 February, 2010 for general information.

Uttarakhand Shasan
VITTA ANUBHAG-8
No. 234/2010/TC 294/XXVII(8)/2007
Dehradun : Dated : 26 February, 2010

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3(A) of the Uttarakhand (the Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005), read with Section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (as applicable in the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to direct that every dealer liable to pay tax under the said Act shall pay in addition to the tax payable under any other provision of the said Act, and additional tax on the taxable turnover of sale or purchase or both as the case may be, on goods specified in column 2 of the table below at the rates specified against each in column 3 of the said table with effect from March 01, 2010.

Table

Sl. No.	Description of Goods	Rate
1	2	3
1.	Goods described in Schedule-II(B) to the said Act other than declared goods.	0.5 percent
2.	In respect of goods other than those included in any of the Schedules to the said Act.	01 percent

(ALOK KUMAR JAIN)
PRINCIPAL SECRETARY, FINANCE.